



जसपाल कौर पब्लिक स्कूल

अंतर्सदन वाद-विवाद प्रतियोगिता (2021-2022)



“ऑनलाइन कक्षाओं में न रुके कोई गतिविधि और न कोई सोच ,


करते हैं आयोजित वाद - विवाद प्रतियोगिता जिससे बढ़े निश्चयक बोध”

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जसपाल कौर पब्लिक स्कूल के हिंदी विभाग द्वारा दिनांक 31-7-2021 को मुंशी प्रेमचंद के जन्म - दिवस के उपलक्ष्य पर अंतर्सदन वाद - विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया , जिसका विषय था - **कोरोना काल : क्या खोया, क्या पाया** । इसके अंतर्गत प्रत्येक सदन से दो प्रतिभागियों ने भाग लिया जिन्होंने उपर्युक्त विषय के पक्ष और विपक्ष पर अपने विचार रखे। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत परमात्मा के आशीर्वाद के बिना अधूरी है, इसलिए

ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए प्रतियोगिता का आरंभ गुरु वंदना से किया गया उसके बाद प्रतिभागियों को इस प्रतियोगिता के नियमों से अवगत करवाया गया। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तीन मिनट का समय दिया गया था । अंत के चार मिनट में खंडन दौर हुआ जिसमें प्रतिभागियों ने अन्य प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। मंच संचालन का कार्यभार *सहजलीन कौर , निमिषा गर्ग , अचिंत कौर और भव्या* को सौंपा गया जिनके नेतृत्व में भलीभाँति यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत परमात्मा के आशीर्वाद के बिना अधूरी है, इसलिए

ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए प्रतियोगिता का आरंभ गुरु वंदना से किया गया।



प्रधानाचार्या जी द्वारा श्रीमती रसना सिंह जी (Vice Chairperson) व निर्णायक मंडल के सदस्यों श्रीमती मंजू मेहता जी व श्रीमती मनीषा अरोड़ा जी का स्वागत किया गया।





प्रत्येक सदन के प्रतिभागियों ने कोरोना काल में क्या खोया -क्या पाया , इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए , जिसमें उन्होंने मानव जाति ने इस पूरे लॉकडाउन में क्या खोया , किस प्रकार खोया और किस प्रकार मानव की भावनाएँ आहत हुई ,उनका वर्णन किया। साथ ही इस कोरोना काल को सकारात्मक रूप में भी पेश किया कि किस प्रकार बच्चे ऑन लाइन शिक्षा के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम के साथ जुड़े रहे और मानवता के नए आयाम देखने को मिले।



प्रतिभागियों के पक्ष और विपक्ष में विचार सुनने के पश्चात निर्णायक मंडल ने बच्चों का उत्साहवर्धन व मार्गदर्शन किया। बच्चों ने बहुत ही भावनात्मक रूप से अपने विचारों को व्यक्त किया , इस बात की उन्होंने विशेष रूप से प्रशंसा की ।

हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस वाद विवाद प्रतियोगिता की प्रशंसा की गई, इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों की तार्किक क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल को मूर्त रूप देना था ।

राष्ट्रीय गान के साथ प्रतियोगिता समाप्त हुई ।

कुछ झलकियाँ -





परिणाम

1	आन्या , पलक (अकबर सदन)	84.5	प्रथम
2	जपलीन , जप्पन (अशोका सदन)	84	द्वितीय
3	जसमन, मनकीरत एम. आर.एस(सदन)	83.5	तृतीय
4	सोनाली , शुभी एच.एस.एन (सदन)	81.5	चतुर्थ

कार्यक्रम संचालक - श्रीमती राशि गुप्ता